

## विद्या भवन बालिका विद्यापीठ

वर्ग अष्टम। शिक्षिका सरिता कुमारी

विषय हिन्दी। दिनांक २७-०५-२०२०

प्रिय बच्चों।

अपनी जिंदगी में अगर वाकई कुछ हासिल करना है तो अपने तरीकों को बदलें, अपने इरादों को कभी नहीं।

आज हमने सावधानी और सुरक्षा के उद्देश्य से जीवन जीने के तरीके बदल दिए

हैं। हमारे इरादे वही हैं। इसलिए विद्यालय न जाकर भी ऑनलाइन पढ़ाई का भरपूर लाभ ले पा रहे हैं।

इसलिए बच्चों। अपने इरादे को मजबूत बना कर रखें। यह सफलता का मूलमंत्र है।

प्राणी वही प्राणी है

कविता से प्रश्नावली की कड़ी जारी है। उम्मीद है पिछले अध्ययन सामग्री में दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपने लिख लिए होंगे।  
अब आगे.....

**3. सही उत्तर पर निशान लगाएं।**

क. प्राणी वही प्राणी है शीर्षक कविता

भवानी प्रसाद मिश्र.....

हजारी प्रसाद मिश्र.....

द्वारा रचित है।

ख. जो हमेशा

सच ....

झूठ .....

बोले वही सच्चा प्राणी है।

ग. जो रुकती दुनिया को आगे बढ़ा दे ,

उसका मरना

अच्छा.....

बुरा.....है।

घ. इस कविता में कवि ने मनुष्य के जीवन का

परोपकारी.....

अपरोपकारी.....

चित्र प्रस्तुत किया है।

**4.रिक्त स्थानों की पूर्ति करें।**

क. .... प्राणी वही प्राणी है जो लोगों की मदद करे।

ख. सच्चे मनुष्य वही होते हैं जो विपत्ति का डटकर..... करते हैं।

ग. .... हमें कभी नहीं हटना चाहिए।

घ. .... सभी प्राणी समान हैं,  
कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं है।

ङ ..... मनुष्य वही है जो  
मनुष्य के लिए मरे।

5. दिए गए शब्दों से वाक्य बनाएं:

स्निग्ध-

सचमुच-

सन्नाटा-

लहर-

सच-

6. संस्कृत भाषा के शब्द जो अपने मूल रूप  
में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वह तत्सम

शब्द कहलाते हैं। संस्कृत के मूल शब्दों के स्वरूप में परिवर्तन आ जाने के कारण इन्हें तद्भव कहा जाता है।

नीचे कुछ तद्भव शब्द दिए गए हैं उनके तत्सम रूप लिखें।

दूध

हाथ

माथा

पांव

सच

7. नीचे दिए गए शब्द के सही समानार्थी पर सही का निशान लगाएं।

क अधर - धरती होठ धारण

ख पानी- नीर आकाश अंबर

ग फूल - कली कुसुम गुलाब

घ दुनिया- प्राणी विश्वास विश्व

ङ प्राणी- प्राणी इंसान इंसानियत

8. बच्चों कुछ शब्द मूल रूप से संज्ञा होते हैं  
किंतु शब्द में उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर  
विशेषण बनाया जाता है।

जैसे सूख (संज्ञा) सूखा (विशेषण)

विशेषण बनाएं

प्यास, भूख, दया, सच ,लालच ,कृपा।

बच्चों प्रश्नावली के साथ यही पाठ का समापन होता है।

दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर अपने गृह कार्य पुस्तिका में लिखें।

अगले दिन अध्ययन सामग्री के साथ फिर उपस्थित होऊंगी।

धन्यवाद।

\*\*\*\*\*